Read Daily Active Times

Public Notice in Form XIII of MOFA (Rule 11(9) (e)) District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Thane & Office of the Competent Authority

Under Section 5A of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963. First floor, Gavdevi Bhaji Mandai, Near Gavdevi maidan, Gokhale Road, Thane (W) 400 602 E-mail :- ddr.tna@gmail.com Tel :- 022 2533 1486

No.DDR/TNA/ Deemed Conveyance/Notice/34906/2023 Date: - 01/11/2023 Application u/s 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the Promotion of construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963 Corrigendum

Application No. 619 of 2013

Applicant: - Pandurang Krupa Co-operative Housing Society Ltd.,
Address: - Pandurang Krupa, Navghar Road, Bhayander (E), Tal. & Dist. Thane - 401106.

Address:-Pandurang Krupa, Navghar Road, Bhayander (E), Tal. & Dist. Thane - 401106. Versus

Opponents: - 1. M/s. Mayur Enterprises through Partners 2. M/s. Rashmi Property & M/s. Rashmi Property Director - Shri. Hemedra Pranjivan Bosamaiya 3. Smt. Bhimabai Prabhakar Patil 4. Shri. Anant Pandurang Patil 5. Shri. Yashwant Pandurang Patil 6. Shri. Krishnakant Pandurang Patil 7. Smt. Bebiai Vithoba Patil 8. Smt. Devyani Manohar Rant 9. Smt. Malini Kesharinath Patil 10. Smt. Hemangi Vidyaghar Mhatre 11. Smt. Bhagibai Bhalchandra Bhoir 12. Smt. Kamubai Vasudev Patil 13. Shri. Pradeep Vasudev Patil 14. Smt. Hansa Ramesh Patil 15. Smt. Sunita Gajanan Patil 16. Smt. Anjushri Anil Gharat 17. Shri. Ramchandra Pandurang Patil 18. The Estate Investment Co. Pvt. Ltd. Take the notice that as per below details those. the notice that as per below details those, whose interests have been vested in the said property may submit their say at the time of hearing at the venue mentioned above. Failure to submit any say shall be presumed that nobody has any objection in this regard and further action will be taken accordingly. The hearing in the above case has been fixed on 24/11/2023 at 01:00 p.m.

Description of the Property:- Mouje Khari, Tal. Thane, Dist-Thane

Survey No./CTS No.	Hissa No.	Total Area
199/82 196/76	3/2 19	557.30 sq.mtrs.
Sea	(Dr. Kishor	

GAGAN GASES LIMITED

REGD. OFFICE-40, SCHEME NO 78, PART II, VIJAYNAGAR, INDORE (M.P.) UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.09.2023

e	9-34-32-507-5- F		uarter End		Half Yea		Year Ended
S. No.	Particulars	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	54.51	34.18	59.43	88.69	149.90	456.45
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	3.57	-6.24	1.96	-2.67	13.92	245.43
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	3.57	-6.24	1.96	-2.67	13.92	245.43
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	3.57	-6.24	-0.04	-2.67	9.92	186.63
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprimising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	3.57	-6.24	-0.04	-2.67	9.92	186.63
6	Equity Share Capital	451.85	451.85	451.85	451.85	451.85	451.85
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						-153.34
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for conituing and discontinued operations) 1.Basic 2.Diluted	0.08	-0.14 -0.14	0.00	-0.06 -0.06	0.22 0.22	4.13 4.13

FORM NO. INC-26 [Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules 2014] Advertisement to be published in Newspaper for the change in

with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosur

Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are

For Gagan Gases Lt

Gagan Maheshwary - Managing Director DIN:00320425

available on the BSE website (www.bseindia.com) and on the Company's websit

(www.gagangases.com)

Date : 02.11.2023

the Central Government, Western Region, Maharashtra, Mumbai In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) **Rules 2014**

Registered Office of the Company from one state to another Before

AND In the matter of M/s OMNI-ID INDIA PRIVATE LIMITED having its registered Office at 2464, 24th Floor, B Wing, Rupa Renaissance, D-33, Turbhe MIDC

Road TTC Industrial Area, MIDC Industrial Area, Turbhe, Navi Mumbai Thane, Maharashta - 400705, India (CIN: U74999MH2013PTC250297) - Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central government under section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the company in terms of the special resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 19th October, 2023 to enable the company to change its Registered Office from "State of Maharashtra" to "State of Karnataka". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of

the Registered Office of the Company may deliver either on the MCA-21 porta (www.mca.gov.in) by filling investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his / her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regiona Director at the Address: Everest 5th Floor, 100 Marine Drive, Mumbai- 400002 Maharashtra, India within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

2464, 24th Floor, B Wing, Rupa Renaissance, D-33, Turbhe MIDC Road TTC Industrial Area, MIDC Industrial Area, Turbhe, Navi Mumbai Thane, Maharashta 400705, India (Present Address)

For and on behalf of the applicant Mr. Suresh Ramaswamy Date: 03.11.2023 DIRECTOR DIN: 08126128 Place: Mumbai

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that, M/s. N.R. Corporation, a partnership firm under provisions of the Indian Partnership Act, 1932 having its registered office at 301, Kumudini building, 3rd floor, Plot no. 35. Opp. Sanyas Ashram, 7th Road, Rajawadi, Ghatkopar (East), Mumbai – 400077 and having PAN no. AACFN8943M through its partner, Mr. Kantilal N. Patel, ("Owner"), are the absolute owner and seized and possessed of and well and sufficiently entitled to the undermentioned property.

An agreement is arrived at whereby the Owner has agreed to sell, transfer, assign convey and assure to our client (i) Mr. Kishor Ranchhod Patel and (ii) Mr. Suresh Ranchhod Patel and our client has agreed to purchase and acquire from the

Ranchhod Patel and our client has agreed to purchase and acquire from the Owner, the undermentioned property.

Our client has been provided with and relied upon the following (i) Deed of Conveyance dated January 27, 2005, and said is registered before Sub Registrar of assurance at Kurla Mumbai Suburban District (Bandra) vide registration no. BDR-3- 00655-2005 dated 28/01/2005 (ii) Agreement for Surrender of Tenancy Rights dated August 22, 2021 between Taraben Suryakant Gangar and Owner and said agreement is on Rs. 500 Indian non judicial stamp paper duly notarised before Notary officer D. G. Bhoir, District Mumbai having Reg. No. 8329 dated August 24, 2023.

Any person/entity including any banks, financial institutions, etc. having an Any person/entity including any banks, financial institutions, etc. having any share, claim, right, title, benefit, interest, objections and/or demand in respec of the undermentioned property or part thereof, in any manner whatsoeve including by way of inheritance, sale, mortgage, charge, loan, assignment easement, exchange, lien, license, deposit of title deeds, pledge, gift, occupation possession, agreement for sale, partition, tenancy, sub-tenancy, let, leave and license, lease, sub-lease, transfer of title or beneficial interest under any trust maintenance, bequest, succession, family arrangement/settlement, contracts maintenance, bequest, succession, family arrangement/settlement, contracts greements, partnership, litigation, Decree, Court Order, Award of any Court of Law, Tribunal, Authority and/or any other forum, acquisition or encumbranc howsoever or other rights through any agreement/writing, is/are hereb required to make the same known in writing along with documentary evidence to the undersigned at the address and the email-id mentioned below within (Seven) days from the date of publication of this notice, failing which, any such share, right, title, benefit, interest, claim, objection and/or demand, etc. if any, o such person/entity shall be disregarded and deemed to have been waived and/or abandoned, and the purchase and acquisition of the undermentioned property by our client, shall be completed without reference to the same.

THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

Flat no. B-1, admeasuring 566.75 sq. ft (Carpet) on ground floor, lying and being situated at Chetan Building No. B (erstwhile as Building No. 2, A wing, Flat no.1) in the building known as "Chetan Building", Rajawadi, Ghatkopar (East), Mumbai – 400077, in registration District and sub District of Mumbai bearing survey no. 78, Hissa No.3, Plot no. 1 CTS No. 4625 to 4646 of Village Ghatkopar Kirol, Taluka Kurla. Dated this 3rd day of November, 2023.

> Gaurav Patel (B.com L.L.B.) Advocate High Court

C/o A-12 Janjira House Rajawadi Rd. Ghatkopar (E). Mumbai -7 Contact: 8356006289 / Email: gp0024017@gmail.com

NOTICE OF LOSS OF SHARES OF JSW STEEL LTD.

JSW CENTRE, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (EAST MUMBAI, MAHARASHTRA - 400 051.

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported as lost/misplaced and the company intends to issue duplicate certificates in lieu thereof, in due course. Any person who has a valid claim on the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days hereof.

Name of the Holder	Folio No.	No. of Shares (Rs. 1 / F. V.)	Certificate No. (s)	Distinctive No. (s)
PRADEEP KUMAR THAVARDAS MEHTA	JSW0809675	2180	2746987	
Place : Mumbai Date : 03.11.2023				RADEEP KUMAR AVARDAS MEHTA

✓ YES BANK LIMITED

Date: 03.11.2023

stered Office: Yes Bank House, Western Express Highway, Santacruz (E), Mumbai, 400 055 Branch Office: YES Bank Ltd., Plot No. 69/4, 3rd Floor, Mutha Sumphony, Law College Road, Erandwane, Pune 411004

Publication of Notice u/s 13 (2) of the SARFAESI Act.

Notice is hereby given that the under mentioned borrower(s)/ co-borrower(s)/ guarantor(s)/mortgagor(s) who have defaulted in the repayment of principal and interest of the loan facility obtained by them from the Bank and whose loan accounts have been classified as Non-Performing Assets (NPA). The notices were issued to them under Section 13(2) of the Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) calling upon them to repay the amount mentioned in the respective demand notice. In connection with above, notice is hereby giver once again to the below mentioned borrower(s)/ co-borrower(s) guarantor(s)/mortgagor(s) by way of this public notice & are hereby called upon to make payment of outstanding amoun indicated herein below together with further interest thereon, within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken after expiry of said 60 days under sub-section (4) of Section 13 of SARFAESI Act.

Sr. No.	Loan A/c No. / Cust ID	Name of Borrower & Co-Borrowers, Guarantors, Mortgagor & Security Provider	Total claim amount as per 13(2) notice	
	. AFH022501514971	Sudeep Bakelal Agarwal,		20-10-2023
1.		Raju Subhash Koli	27,23,237.28/-	13-09-2023

Co-Operative Housing Society Ltd., Kharvai, Constructed on Land bearing S No. 27, H No. 3/5/8, S No. 27, H No. 3/6/9, Village Kharvai Badlapur, Tal. Ambemath, Dist. Thane 421503.

AFH006800929617 & Anil Janardhan Ghutukade AFH006800929365 27,92,630.25/-Sangita Anil Ghutukade 13-09-2023 Secured Asset: Flat No. 401, Area admeasuring 31.598 Sq. Mtrs. Carpet, 4th Floor, Moreshwa

Heights, Survey No. 245, Hissa No. 1,2 & 3, Village Bolinj, Virar West, Palghar 401303. Ravindra Vyankatrao Mule, 20-10-2023 AFH000100870956 15,11,830.81/-Reshma Ravindra Mule 13-09-2023

Secured Asset: Flat No. 002, Area Admeasuring 32.43 Sq. Mtrs., Ground Floor, A Wing,

4.	AFH0001	Ankush Ramdas Salvi,	Rs.	20-10-2023
	00867489	Asmi Ankush Salvi	15,71,292.38/-	13-09-2023
Se	cured Asset : Fla	at No. 202, Area Admeasuring 30.70	Sq. Mtrs. Carpet Are	a, 2nd Floor,

A Wing, Building No. 8, Navkar Complex, Village Makane, Talathi Saza Saphale, Tal. 8 5. AFH000100949480 & Shaikh Imtias, Fatima B Shaikh, AFH000100949481 | Mohammed Tariq Siddhique | 8,811,063.11/- | 13-08-2023

Secured Asset: Flat No. 1502, Area admeasuring 48.71 Sq. Mtrs.(Along with One Multi Level Car Parking), Flat No. 1501, Area admeasuring 48.71 Sq. Mtrs. .(Along with One Multi Level Car Parking), on 15th Floor, Palava, Casa Adriana Building, G Wing, Kalyan Shil Road, Village Khoni, Kalyan, Dist. Thane

6.	Cust ID 12410420	Secure Source Technologies Pvt Ltd, Manmohan Jitendra Sood, Kalpesh Sarang	Rs. 2,86,44,904.39/-	14-09-2023 27-06-2023
Se	cured Asset:	Flat No. D-904, 09th floor 'Orchid Enclave Cl	HSL', Village: Chanc	fivali, situate,

lying and being at Nahar Amrit Shakti, Chandivali Farm Road, Andheri (E), Mumbai-400 072.

Sakinaka, Saki Vihar Road, AG Road, Andheri East Mumbai - 400 072.

7.	MOR0001 00327216	Sai Prakash Exonof Engineering Works Pvt. Ltd	Rs. 82,71,062.25/-	13-10-2023	
Se	cured Asset	Unit 105A, 105B & 105C on 1st Floor,	Trade Corner Pre	emises CSL.	

Furthermore, this is to bring to your attention that under Section 13 (8) of the SARFAESI Act, in case our dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date of publication of auction/sale then the secured asset shall not be sold or transferred

by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset. Date: 03.11.2023 Authorized Officer Place: Mumbai

YES BANK Limited

FISCHER CHEMIC LIMITED

CIN : L24231MH1993PLC288371

104, First Floor Raghuleela Mega Malli Behind Poisar Depot Kandivali West, Mumbai, Maharashtra, India, 400067 Email Id: fischerchemicItd@gmail.com Website: www.fischerchemic.in

Extract of Unaudited Financial Results For the Quarter & Half year ended 30th September 2023. (Amount in Lakhs)
Half Year Ended Year Ended

		-	quarter Ende	a .	nali rea	ir chaea	rear chided
Sr.	PARTICULARS	Unaudited			Unau	Audited	
No.	PARTICULARS	30.9.2023	30.6.2023	30.9.2022	30.9.2023	30.9.2022	31.3.2023
1	Total Income from Operations	20.14	-	7.2	20.14	-	17.95
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,		(44.40)	(5.00)		10.00	(0.40)
	Exceptional and/or Extraordinary items#)	15.65	(11.18)	(5.00)	4.46	(9.66)	(0.13)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax	45.05	/44 40)	(F 00)	1.10	10.001	(0.40)
4	(after Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after	15.65	(11.18)	(5.00)	4.46	(9.66)	(0.13)
*	Exceptional and/or Extraordinary items#)	14.41	(21.75)	(5.88)	3.22	(11.42)	(3.65)
5	Total Comprehensive Income for the period	19641	(21,10)	(0.00)	J.22	(11.42)	(0.00)
, and	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)						
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	14.41	(21.75)	(5.88)	3.22	(11.42)	(3.65)
6	Equity Share Capital	250.00	250.00	17.20	250.00	17.20	17.20
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown						
	in the Audited Balance Sheet of the previous year.					-	(26.60)
8	Earnings Per Share						
	(for continuing and discontinued operations) -	4.05	(0.75)	(0.40)	10.04	10.041	(0.40)
	1. Basic:	1.05	(9.75)	(3.42)	(0.24)	(6.64)	(2.12)

2. Diluted: 1.05 (9.75) (3.42) (0.24) (6.64) Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges. under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity viz www.bseindia.com and www.fischerchemic.in

For and on behalf of the Board of Fischer Chemic Limited

Date: 01st November 2023 Place: Mumbai

Dilip Suryakant Jha Director & CEO DIN 09829523

Only)

Only)

BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED

Corporate Office: Cerebrum IT Park B2 Building 5th floor, Kalyani Nagar, Fune, The Branch Office: 7th Floor, Sumer Plaza, Unit No. 702, Marol Maroshi Rd, Sankasth Pada Welfare Societ Marol, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400059, INDIA, AND C/4 Plot No. 12, Kohinoor Estate Hsg. Branch Office: 7th Floor, Sumer Plaza, Unit No. 702, Marol Maroshi Rd. Sankasth Pada Welfare Society

Demand Notice Under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Undersigned being the Authorized officer of Mis Bajaj Housing Finance Limited, hereby gives the following notice to the Borrower(s)/Co-Borrower(s) who have failed to discharge their liability i.e. defaulted in the repayment of principal as well as the interest and other charges accrued there-on for Home loan(s)/Loan(s) against Property advanced to them by Bajaj Housing Finance Limited and as a consequence the loan(s) have become Non Performing Assets. Accordingly, notices were issued to them under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and ever the same have been returned un-se

intimated/informed by way of this publication notice to clear their outstanding dues under the loan facilities availed by them from time to time.					
Loan Account No./Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/Guarantor(s) & Addresses	Address of the Secured/Mortgaged Immovable Asset / Property to be enforced	Demand Notice Date and Amount			
Branch: MUMBAI (LAN No. H405HHL0111244 and H405HLT0136045) 1. D H SHIRKE (Borrower) At Gajanan Damodar Mhatre House, Room No.	All That Piece And Parcel Of The Non-agricultural Property Described As: Flat No 1301 Floor No 13 Building No. 16, Shri Shashwat Plezent Park, Comprised On Land Bearing Old Survey No. 177, New Survey No. 45, Hissa No. 4, Village Mira Old Survey No. 181 Hissa No. 7 (Cast) Now Comment of States No. 7, To American States Control of States No. 7, To American States Control of States No. 7, To American States Control of States No. 7, To American No. 7, To American States No. 7, To Ameri	Rs. 69,21,740/- (Rupees Sixty Nine Lac Twenty One Thousand Seven			

(part) New Survey No. 50 Hissa No. 7/C And Old Survey No. 179 New Survey No. 47 Hissa No. 2 Bhayander Road Mira Road East, Dist Thane 401107 Maharashtra-400103 Also At: Flat No 1301 Floor No 13 Building No. 16, Shri Shashwat Plezent Park, Mira Bhayander Road Mira Road East Dist Thane 401107

2. DISHTI DIPESH SHIRKE (Co-Borrower) 3. H M SHIRKE (Co-Borrower)

04, Eksar Road Near Eksar Medical, Mumbai,

2 & 3 At: Gajanan Damodar Mhatre House, Room No 04, Eksar Road Near Eksar Medical, Mumbai, Maharashtra-400103 All That Piece And Parcel Of The Non-agricultural 21st Oct 2023

Branch: PUNE (LAN No. H402HHL0466565 and H402HLT0470533 and H402HLT0470534) 1. DHAMMADEEP ASHOKRAO KAMBLE

(LAN No. 402HSOEA314111 and 402TOLEA392470)

1. MAKARAND BALIRAM HODE

Aayush Park Pune-410507

Branch: PUNE

Property Described As: All That Consisting Piece And Rs.36,72,012/Parcel Of Property Flat No 303 Area Admeasuring About L425 Sq Ft I.e.39.49 Sq Mtr Carpet Area Along With Attached Terrace Area 52 Sq Ft I.e.4.83 Sq Mtr On The Third Elevan In The Rulliding Kopun As Sidelphidianak Onument Control of the Property In The Rulliding Kopun As Sidelphidianak Onument Control of the Property In The Rulliding Kopun As Sidelphidianak Onument Control of the Property In The Rulliding Kopun As Sidelphidianak Onument Control of the Property In The Rulliding Kopun As Sidelphidianak Onument Control of the Property In The Rulliding Kopun As Sidelphidianak Onument Control of the Property In The Rulliding Kopun As Sidelphidianak Onument Control of the Property In The Property Third Floor In The Building Known As Siddhivinaya Heritage Situated At Village Ambegaon Budruk Tal Have 2. NIRMLA ASHOKRAO KAMBLE Both At: Flat No 303, Siddhivinayak Heritage,

Sr No 8/2 Dhabadi Nr Sai Mandir Ambegaon, Pune, Maharashtra-411046 All That Piece And Parcel Of The Non-agricultural Property Described As: Flat 707 07th Floor Wing C Rs.23,58,900/Aayush Park Ii Off Talegaon Chakan Road Survey No 32 (Rupees Twenty Hissa No 2 1 2 6 Hissa No 2 7 2 5 Village Varale Taluka Maval District Pune Maharashtra-410507

2. DEEPALI GANESH PAWAR (Co-Borrower) Both At: At SR NO 32/2/3/4/5 Hissa No 3 Flat No No C 707 Aayush Park II Behind The D Y Patil College

This step is being taken for substituted service of notice. The above Borrowers and/or Co-Borrowers Guarantors) are advised to make the payments of outstanding along with future interest within 60 days from the date of publication of this notice failing which (without prejudice to any other right remedy as with Bajaj Housing Finance Limited) further steps for taking possession of the Secured Assets/mongaged property will be initiated as per the provisions of Sec 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above mentioned properties. On which Bajaj Housing Financial

Limited has the charge. Date: 03 .11. 2023 Place:- MAHARASHTRA Authorized Officer Bajaj Housing Finance Limited PUBLIC NOTICE

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

Flat No. 902, being on 9th Floor, admeasuring about 31.37 sq. mtrs, (carpet area), +9.85 sq. mtrs, (excusive area), aggregating to total 41.22 sq. mtrs, in Building No. 4, Wing "B", known as "Godrej Vihaa Phase 2", situated at Godrej Vihaa, Near Kharwai Naka, Next to Usha Kiran Residency, Neral - Badlapur Road, Badlapur (East), Thane - 421 503, on land bearing Survey No. 1/6 Pt, 7/8 Pt, 7/9 Pt, 7/10 Pt, 7/2 Pt, 7/3 Pt, 7/4 Pt, of Village - Joveli, Taluka - Ambernath, District - Thane. Mr. Ray D Finch.

Publication has been done giving 10 days' notice to general public in mentioning any claim with respect to the said Flat.

Date: 03-11-2023

20-10-2023

I have invited third party claims or demand from any persons against or on respect of the said flat or any part thereof and NO such claims or demands are raised to or received by me from any person/s so far and till date.

> (Advocate) J. P. Tripathi Off: Abdul Aziz Chawi, 24, Room No. 4, L.B.S. Marg, Navpada, Kurla (W), Mumbai - 400 070.

PUBLIC NOTICE

Notice is given to general public that my clients Mrs. Kiran M. shah & Mr. Mano Alias Manojkumar Anantrai Shah, are intend to sale Shop No. 21, Gr. Fir. admeasuring 236 Sq. Ft. Carpet Area alongwith One (1) Car Parking Space, in the society "Sal-Baba Dham" Co-Op. Hsg. Soc. Ltd., situated at Sal Baba Nagar, Off. S V. Road, Borivali (West), Mumbai - 400092, hereinafter referred to as "the said Shop" n Ownership Basis together with all rights, title, interests, benefits etc.

Whereas Agreement For Sale dated 15/01/1982 executed between Messrs. Arurernational – as developers and Smt. Chaturi Manghanmal – as purchaser, was isplaced / not traceable / lost, hereinafter referred as the "said Agreement".

Any person/persons/bank/institution/Company having any claim, objection, right of

interest in the said shop/agreement/deeds or any part thereof by way of sale, transfer assign, mortgage (equitable or otherwise), exchanging, inheritance, lease, easements tenancy, lien, licence, gift, bequest, trust, maintenance, possession or encumbrance or any attachment requested to make the same known in writing along with the supporting documents and/or any evidence by Registered Post A.D. to undersigned a the address given below within the period of 14 days from the date of publication of this notice with copies of such documents / deeds / Agreement / papers and other proofs support of claims/objections for the transfer of the said shop and regarding the title of the said shop. If no claims/objection is received/raised within the period prescribed nen my clients, can sell, transfer, assign, convey the rights in respect of said shop, t Mr. Harsh Raju Modi, without reference to any such claims and the same if any will deemed to have been waived or abandoned.

SCHEDULE OF THE PROPERTY Shop No. 21, Gr. Fir., admeasuring 236 Sq. Ft. Carpet Area alongwith One (1) Car Parking Space, in the society "Sai-Baba Dham" Co-Op. Hsg. Soc. Ltd., situated at Sai Baba Nagar, Off. S. V. Road, Borivali (West), Mumbai - 400092.

ADVOCATE SONAL K. BAGADIA LG/7, Xth Central Mall, Next to D'mart, Mahavir Nagar Kandivali (W), Mumbai 400067 Date : 03/11/2023

NOTICE

Notice is hereby given that our client Smt. Hasumati Bharatkumar Gor (wife), Mr. Jignesh Bharatkumar Gor (Son) & Mrs. Vipa Niraj Shah (daughter) alias Vipa Bharatkumar Gor (before marriage name). Late Bharatkumar V. Gor is the owner of Flat no.201 on the Second floor, in the building known as Om Sai Deep Co-operative Housing Society Ltd., Tulinj Road, Nallasopara East, Tal. Vasai, Dist. Palghar. Unfortunately, Mr. Bharatkumar V. Gor Died on 28th February, 2003 leaving behind his Wife, Son & Daughter as his Legal heirs. The share certificate issued by society is having certificate no.13 distinctive no. 61 to 65. Any person/s who is/are having any claim, right, title and interest in the said flat by way of sale, gift, exchange, mortgage, charge, lease, lien, succession or in any other manner whatsoever should intimate the same to the undersigned with documentary proof within 15 days from the date of publication of this notice at the address provided hereunder. In case no objectors are received within the aforesaid time, it shall be presumed that there are no claimants and Smt. Hasumati Bharatkumar Gor (wife), Mr. Jignesh Bharatkumar Gor (Son) & Mrs. Vipa Niraj Shah (daughter) alias Vipa Bharatkumar Gor (before marriage name) are entitled to gift, transfer, Sale and assign the above said flat along with the shares provided by the society.

Lex Legal Remedy (LLP) Advocates & Legal Consultant Office no. 44, Sanskruti Building Nallasopara Vasai Link Road Nallasopara (E), Tal. Vasai Dist. Palghar 401209 PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public a large. that, Mrs. Chungshew Annie Cher wife of late Mr. Tulun Terence Chen, who Passed away on 8th June 2022 and who was the owner of a flat No. 2201, A wing Imperial Heights Co-operative Housing Society Ltd. Goregaon West Mumbai 400 104, and holding to shares of Rs. 50 each numbered from 991 sale to 1000 both inclusive, for sale of said flat, she is the legal heir and representative of Late Mi Tulun Terence Chen along with one daughter and one son having any Claim of claim against or in the said property for any part thereof by any way however, are hereby, required to make Same in writing to the Adv Najma Sharif having Address Krishna Apartment Office No.112 Opp Shiv Sai Mandir, Kajupada, Behram Baur Jogeshwari West Mumbai - 400102 within 14 days from this publication of the Notice otherwise the flat- will be sale transfer without reference any claim of claims and the same. will be considered as waived or abandoned

Place: Mumbai Date: 03/11/2023.

PUBLIC NOTICE

land properties situated at Village Chulne, Talathi saza Umelman, Vasa Virar City Corporation, Taluka Vasai District Palghar, i.e. 1) S. No. 89/3/1 area 8.80.00 Aar Sq. Mtrs., owned by Luiza Inas Miranda, 2) S. No. 89/3/2 area 7.60.00 Aar. Sq. Mtrs., & 3) S No. 89/3/3, area 9.60.00 Aar. So Meters, owned by Ezabel Paul Miranda, & other 4 person and 4) S. No. 89/3/4, admeasuring 0-14-60 H.R., S. L. 0-00-80 H.R. owned by Bob Anton Rebel & other | person Out of which land properties Sr. No. to 3 are taken by M/s. Judith Realtor through its Partners 1) Johnson Manvel Lopes & 2) Anil Merceline Murzello through developme agreement. And land property Sr. No 4 is taken by 1) Johnson Manvel Lope & 2) Anil Merceline Murzello through Conveyance Deed. Now they desire to develop the said properties collectively. All procedure is complete & development construction permission is about to come from Vasai Virar City Corporation. However, if any person or institution having any objection should send their claims in writing to the undersigned at 'Mathura bungalow, near Hanuman Temple Hall, Yadav Patil Marg, Diwanmar Vasai Road (W), Dist Palghar 401202, & in Vasai Virar Cit Corporation office, with documentar evidence in support thereof within 14 days of publication of this Notice failing which the claims, actions it any, shall be deemed to have been waived.

ADV. MR. D. K. MANKAR

Public Notice in Form XIII of MOFA (Rule 11(9) (e)) District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Thane & Office of the Competent Authority

Under Section 5A of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963. First floor, Gavdevi Bhaji Mandal, Near Gavdevi maldan, Gokhale Road, Thane (W) 400 602 E-mail :- ddr.tna@gmail.com Tel :- 022 2533 1486

No.DDR/TNA/ Deemed Conveyance/Notice/34939/2023 Date: - 02/11/2023 Application u/s 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the Promotion of construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963 Corrigendum

Application No. 798 of 2023

Applicant :- Shankar Mahadev Prasad Co-operative Housing Society Ltd., Address :- Siddheshwar Lane, Parnaka, Kalyan (W), Tal. Kalyan, Dist. Thane-421301.

Dist. Thane-421301.

Versus

Opponents: - 1. M/s. Siddharaj Builders and Developers 2. Smt. Anjali Anil Sant 3. Smt. Shailaja Vilas Deshpande (since deceased) through her Legal Heirs (a) Smt. Depajal Üpendra Joshi, (b) Smt. Mrudul Amol Tambay, 4. Smt. Sarita Jayant Kulkarni 5. Smt. Rekha Sadanand Punde (since deceased) through her Legal heirs (a) Shri. Abhjilt Sadanand Punde, (b) Smt. Anuja Anand Are 6. Smt. Anagha Arvind Kanetkar. Take the notice that as per below details those, whose interests have been vested in the said property may submit their say at the time of hearing at the venue mentioned above. Failure to submit any say shall be presumed that nobody has any objection in this regard and further action will be taken accordingly. The hearing in the above case has been fixed on 24/11/2023 at 12:00 p.m.

Description of the Property: Moule Kalyan, Tal. Kalyan, Dist-Thane Description of the Property :- Mouje Kalyan, Tal. Kalyan, Dist-Thane

Total Area Survey No./CTS No. Hissa No. (Dr. Kishor Mande) Seal District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Thane. & Competent Authority, U/s 5A of the MOFA, 1963.

NAYSAA SECURITIES LIMITED

Registered Office: 102/104, Shivam Chambers, Above Spectra Motors SI Goregaon (W), Mumbai - 400062, INDIA (CIN: L67120MH2007PLC175208) saa@naysaasecurities.com • Website: www.naysaase Phone: 91-22-26760404 • Telefax: 91-22-26760202

Statement of Financial Results for the Quarter and Six Month Ended on September 30, 2023 Rs. In lakhs except per Share Data
Period Ended Year Ende
22 30-09-2023 30-09-2022 31-03-2023 **Particulars** Unaudited Audited ne from operations 2,142.9 ,445.13 386.59 1292.45 (a) Net sales/income from operations (Net of excise duty) b) Other income 31.92 3,647.77 395.26 a) Purchases of stock-in-trade and 1,663.5 713.84 1437.19 2,377,38 1,535.86 2844.61 Share & Securities
(b) Changes in inventories of finished goods. 677.22 971.98 1,183.90 1464.75 294.7 (1188.45)work-in-progress and Share & Securities (c) Employee benefits expense (d) Finance Cost 28.87 9.60 4.83 e) Depreciation and amortisation expense Other expenses 16.0 19.13 35.20 14.22 51.49 1,987.23 ,428,97 272.65 3,416.20 393,57 1.517.95 otal expenses Profit / (Loss) before Extraordinary Items and To 194.29 -14.89231.57 1.69 -193.58 37.28 231.57 Profit / (Loss) before tax 194.29 -14.89 1.69 -193.58 1.04 0.15 9.50 -2.00 9.65 Taxation Of Earlier Years 0.48 1.54 (0.45)0 Net Profit / (Loss) after tax 194.89 27.18 -12.89 222.07 1.09 -196.64 Other Comprehensive Income a) Item that will not be reclassified to profit & loss b) Income Tax Relating to items that will not be 16.81 -6.02-16.76 5.75 4.23 1.52 4.22 reclassified to profit & loss 14 Total other Comprehensive Income (12-13) 12.58 -12.54 211.97 10.10 -0.31222.07 -3.41 -209.18 (10+14) 1086.19 1086.19 1086.19 1086.19 434.48 434,48 Paid-up equity share capita (Face Value per share 10/-) -83.89 (9.00 Reserve excluding Rev Earnings per share (Rs.10/-) (before Extraordinary Items)) Diluted 1.79 0.25 (0.37)2.04 0.03 (1.81)ings per share (Rs.10/-) (after Extraordinary Items) (not Annualised) (b) Diluted 0.25 (0.37)0.03 (1.81)

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee meeting held on November 02, 202

and thereafter approved by the Board of Dirctors at their meeting held on November 02, 2023

The Statutory Auditors have carried out the Limited Review of the financial results of the company for the quarter and half year ended September 30,2023 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Statutory Auditors have expressed an unmodified opinion on

this results.

These financial Results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practice and policies to the extent applicable.

Company operates only in one segment i.e. Share Broking and Trading and hence there is no other primary reportable segment as required by Indian Accounting Standard (Ind-AS)-107 "Segment Reporting"

Previous year/periods figures have been regrouped /reclassified, wherever nece

For Naysaa Securities Limite Dated : November 02, 2023

<mark>न्यूग</mark>window

708 पिंक मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे

इन्दौर • जिले में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 708 पिंक मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे। इन मतदान केन्द्रों का पूरा संचालन महिलाओं के हाथों में रहेगा। यहां पीठासीन अधिकारी से लेकर सभी मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी महिलाएं ही रहेंगी। इन मतदान केन्द्रों पर विशेष साज-सज्जा भी की जाएगी जिससे की यह मतदान केन्द्र अलग नजर आए। पिंक मतदान केन्द्रों पर महिलाओं को ही मतदानकर्मी व सरक्षाकर्मियों के रूप में तैनात किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के आदेश पर इस बार भी पिंक बुध बनाए जा रहे हैं। ये पिंक मतदान केन्द्र अन्य मतदान केन्द्रों से अलग नजर आएंगे। बताया गया कि इंदौर जिले में विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में 25, इंदौर-1 में 100, इंदौर-2 में 110, इंदौर-2 में 70, इंदौर-4 में 89, इंदौर-5 में 140, डॉ. अंबेडकर नगर मह में 39, राऊ में 90 तथा सांवेर में 45 पिंक मतदान केन्द्र बनाने की तैयारी की जा रही है। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

बुथों की बिजली व्यवस्था संभालेंगे 520 इंजीनियर समेत 2000 कर्मचारी

इन्दौर • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बूथों पर संपूर्ण व्यवस्था करने के आदेश के महेनजर मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भी दोनों मुख्य अभियंताओं को चुनाव के मद्देनजर बूथों की समीक्षा करने के निर्देश दिए है। कंपनी के करीब 520 इंजीनियरों समेत दो हजार कर्मचारी इस व्यवस्था को संभालेंगे। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि बूथों पर बिजली वितरण के लिए इंदौर व उज्जैन के मुख्य अभियंताओं समेत सभी 15 जिलों के अधीक्षण अभियंता, 55 डिविजनों के कार्यपालन अभियंता अपने इलाके के बूथों की संपूर्ण व्यवस्थाएं कराएंगे। इसके साथ ही जोन, वितरण केंद्रों पर पदस्थ 450 सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता भी बुथों की बिजली व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। श्री तोमर ने बताया कि 15 अधीक्षण अभियंताओं एवं 55 कार्यपालन अभियंताओं को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी से सतत

तालमेल बनाए रखने के निर्देश

chaitanyalok.page

पहुँचना और दशकों से उस पोजीशन

पर बने रहना न केवल कड़ी मेहनत

बल्कि इनोवेटिव सोच और क्रिएटिव

कार्यशैली को भी दर्शाता है। ऐसा ही

एक नाम है 'दीपक एडवरटाइजिंग'

जो आज '360 डिग्री कम्युनिकेशन

सॉल्यशन प्रोवाइडर" के रूप में

पिछले लगभग 3 दशकों से

एडवरटाइजिंग के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ

सेवाओं के लिए दीपक एडवरटाइजिंग

को पूरे मध्यभारत में जाना जाता है।

एडवरटाइजिंग से शुरू होकर आज

कम्पलीट कम्युनिकेशन सॉल्युशन

प्रोवाइडर के रूप में दीपक एडवरटाइजिंग

4 राज्यों और छह शहरों इंदौर,

गुड़गांव(दिल्ली), जयपुर, भोपाल, नागपुर

और जबलपर में अपनी सेवाएं दे रही है।

इन वर्षों में दीपक एडवरटाइजिंग के खाते

में अनेकों अहम उपलब्धियां जुड़ती

गयी। 16 बार एजेंसी ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड

जीतने के साथ-साथ 181 से अधिक

राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड एजेंसी के

लोकप्रिय है।

सफलता की ऊँचाइयों तक

मतदान कराने वाले दलों को दिया गया प्रशिक्षण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार इंदौर जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिन्यांग मतदाताओं को उनके घरों पर पहंचकर मतदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिये मतदान दलों का गठन किया गया हैं। इन दलों को आज प्रशिक्षण दिया गया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम होल्कर साइंस कॉलेज में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त आलोक कुमार पाण्डे

चैतन्य लोक • इंदौर

chaitanyalok.page

हए इसी कडी में मेघदत उपवन के

बाहर रात में माता की भक्ति परे जतन से

एरोबिक्स क्लब मेघदत की टीम ने की

इस आयोजन के लिए सभी ने न केवल

पारम्परिक परिधान पहने बल्कि श्रंगार भी

किया। महिलाओं ने आकर्षक दिखने के

लिए कोई कसर नहीं छोड़ी पुरुष भी गरबा

परिधान में आकर्षक नजर आए प्रशांत

इंदरकर, इन्दर यादव, सुनील यादव ने

ये जानकारी देते हुए एरोबिक्स

क्लब मेघदूत के आयोजन समिति

प्रमुख मध् ग़ौर ने बताया बेस्ट गरबा

व बेस्ट ड्रेसअप के साथ बच्चों को

भी नकद राशि देकर सम्मानित किया

गया। क्लब के मुख्य प्रशिक्षक जितेंद्र

मेश्राम की उपस्थिति में क्लब की ट्रेनर

पुजा सैनिया, अनीता राजौरिया ने बेस्ट

परिधान के लिए प्रशांत इंदरकर व

सीता बाला गोठवाल को प्रदानकिए

इसी तरह बेस्ट गरबा के लिए इन्दर

नाम है। गत वर्ष में दीपक एडवरटाइजिंग

ने सम्मिट इंटरनेशनल गोल्ड अवॉर्ड

2023 एवं प्लेटिनम एजेंसी ऑफ़ द ईयर

अवॉर्ड जीता। इसके अलावा राष्ट्रीय

स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में

हुए NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

प्राधिकरण) के 2 इवेंट्स के इवेंट

मैनेजमेंट पार्टनर और मध्य प्रदेश में वंदे

भारत एक्सप्रेस लॉन्च इवेंट व क्रेडाई के

राष्ट्रीय स्तर के इवेंट के क्रिएटिव पार्टनर

के रूप में दीपक एडवरटाइजिंग ने पूरे देश

में ख्याति प्राप्त की है। 27 वीं वर्षगाँठ के

अवसर पर मैनेजिंग डायरेक्टर श्री दीपक

जेठा ने कहा कि दीपक एडवरटाइजिंग

की हर उपलब्धि टीमवर्क और क्लाइंटस

के भरोसे का सखद परिणाम है जिसने

लंबे अरसे से हमें अग्रणी बनाए रखा

है। दीपक एडवरटाइजिंग एजेंसी जहाँ

मारुति, सैमसंग, वालमार्ट, सोनी, महिंद्रा

एंड महिंद्रा, वेक्टस, डी.पी. आभूषण

लिमिटेड, श्री वैष्णव ट्रस्ट जैसे कॉर्पोरेट

क्लाइंट्स को अपनी सेवाएं दे रही है, वहीं

NHAI, रेलवे, इंडियन ऑइल, आई

आई एम, LIC, NHDC, अवंतिका,

IMC, इत्यादि शासकीय क्लाइंट्स को

भी सफलतापूर्वक सर्विस दे रही है।

छाप छोड़ी।

दीपक एडवरटाइजिंग ने 27वीं वर्षगांठ

पर मनाया उपलब्धियों का जश्र

शहर में अभी तक गरबा आयोजन



बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के घरों में पहुंचकर



भी पहुंचे। इन्होंने निर्वाचन प्रशिक्षण का जायजा लिया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर गौरव बेनल, प्रशिक्षण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी तथा इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी आर.पी. अहिरवार, प्रशिक्षण के प्रभारी सुदीप मीणा भी मौजूद थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 500 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इन्हें भारत निर्वाचन आयोग के नियम, निर्देशों, मतदान की प्रक्रिया तथा मतदान के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया। जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार 80

दिव्यांग मतदाताओं (पीडब्ल्युडी) को घर बैठे मतदान की सविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिये 109 मतदान दल बनाये गये हैं। साथ ही 18 दल रिजर्व रहेंगे। इस तरह कल 127 दल गठित किये गये हैं। जिले में 80 वर्ष से अधिक आय के मतदाताओं और पीडब्ल्युडी मतदाताओं को घर बैठे मतदान सविधा डाक मतपत्र के माध्यम से दी जायेगी। गठित दल चिन्हित उक्त मतदाताओं के घर पहंचेंगे और पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मतदान की कार्यवाही संपन्न करायेंगे। इस दौरान मत की गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

मेसर्स प्रभु श्री रियल एस्टेट कॉलोनी नाम :- अबरिश वैली ग्राम सनावादिया तहसील - मिचोलीहप्सी indore mp

आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग में प्लोटो के विक्रय/आवंटन के संबंध में सुवना। ाध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 और उसके अधीन बनाये गए मध्यप्रदेश प्राम पंचायत (कालोनीयों का विकास) नियम 2014 के अधीन हमारे द्वारा ग्राम सनावदिय हसील- भिचौलिहप्सी जिला इन्दौर में खसरा नंबर 46/2/1 रकवा 0.5860 हे. में से 0.413 है एवं खसरा नंबर 46/2/2 रकबा 0.5870 हे कुल रकबा 1.1730 हे. में से 1.00 हे. भूमि पर वेकसित आवासीय कॉलोनी **अबरिश वैली** में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग हेत् अरिक्ष रखंड पर प्लोट का विक्रय/आवंटन नियम में निर्धारित मापदंडो पर किया जायेगा

आवेदन मध्यप्रदेश का मूल निवसी हो (सक्षम अधिकारी द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र)। 2 आवेदन को आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग की पात्रता हेतु कमजोर वर्ग का होना आवश्यक है सक्षम राजस्व पाधिकारी दारा पात्र)। 3. प्लाटों का पंजीयन हेत निधारित पारूप आवेदन-पत्र एर शर्ते 100/- जमा करवा कर विज्ञपित प्रकाशन के पश्चात 1-a एजुकेशननिस्ट अजय बाग कॉलोर्न ार्मदा प्रोजेक्ट मेन गेट मुसाखेडी इंदौर इस्थित कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। 4. आवेदक अथव उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से म.प. में आवास या आवासीय भरवंड न हो। 5. कोई भी आवेदन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर महोदय का होगा उक्त सभी दस्तावेज कि छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न करना

मेसर्स प्रभु श्री रियल इस्टेट 1-a एजुकेशननिस्ट अजय बाग कॉलोनी नर्मदा प्रोजेक्ट मेन गेट मुसाखेडी इंदौर मोब. 7024253142

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय धार (म.प्र.)

क्रमांक PITLP240923117/दिनांक/01/NOV/2023

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ की धारा २९(३) सहप्रतित म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14(3) के अधीन दी गई अनुज्ञा में उपातंरण की दशा में आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु स्सामान्य को जानकारी हेतु एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेससं (MANISH KUMAF AGRAWAL) TIRUPATI AGRO TARFE-1). SHRI MANISH KUMAR AGRAWAL S/O SHRI RAJABABU AGRAWAL 2), SHRI RAMKISHOR RATHI S/O SHRI RAMVILASH RATHI 3), SHRI SURESH SHARMA S/O SHRI BHAGVATI PRASAD SHARMA 4) SHRI AJAY RATHI S/O SHRI (AMALKISHOR RATHI 5), SMT. CHANCHAL GOYAL W/O SHRI DEVENDRA GOYAL 6), SHR SANKET AGRAWAL S/O SHRI SANJAY AGRAWAL 7). SHRI APURV GOYAL S/O SHRI SATISI GOYAL द्वारा नीचे दिये गये अभिन्यास में उर्यातरण हेतु आवेदन किया है:-

क) परियोजना का नाम:- TIRUPATI DIMOND CITY EXTENSION. (ख) अवस्थिति (अवस्थिति/ग्राम व ाम एवं खसरा क्रमांक):- पूर्व स्वीकृत ग्राम Dehri तहसील Rau व जिला Indore की भूमि सर्वे क्रमांक/ खस मांक 69/1, 98 कुल रकबा 2.213 हेक्टेयर भूमि पर RESIDENTIAL, RESIDENTIAL LAYOUT विकार हेतु अनुमोदित अभिन्यास में संशोधित अभिन्यास का अनुमोदन चाहा गया है। (ग) विकास का प्रयोजनः RESIDENTIAL, RESIDENTIAL LAYOUT. (घ) मंजूरी क्रमांक 6268/S.P./P/24/19/ NAGRANI/2019 दिनांक 2019-11-11

र्व स्वीकृत अभिन्यास में यदि उपांतरण किया जाता है, तो उससे परियोजना से जुड़े व्यक्ति/संस्था के हित प्रभावि ाने की संभावना है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, उपांतरणों से संबंधित अपनी आपत्ति या सझाव, इस सचना के प्रकाश के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में अथवा https://dtcp.mp.gov.in/alpass/Web प्रस्तावित उपांतरित अभिन्यास का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरा नथवा website https://dtep.mp.gov.in/alpass/Web/ulogin.aspx पर किया जा सकता है।

सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला धार म.प्र

In The Court of IV Additional District and

Sesion Judge, District Court, Indore

Presiding Officer: जयदीप सिंह

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा २७२ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

वर्राशन प्रकरण क्रमांक (MJC SUC/0000245/2023)

VS

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक ऐश्वर्या पंखुड़ी ने मृतक हिरेन्द्र कुमार

अस्थाना पिता स्व. पूरनचंद निवासी 14/12, 14वीं मंजिल, ओविंट अपोलो डीवी सिटी, निपानिया.

इन्दौर की पंजाब नेशनल बैंक, मनोरमांगज शाखा में एक लॉकर 20784 में रखा कीमती सामान।

राशि संपत्ति हेतु **लेटर ऑफ एड मिनिस्ट्रेशन** प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन

अभिभावक/संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपति हो अथवा उक्त

प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 08 January 2024 को न्यायालय

में ख्वयं अथवा अधिववता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो

. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर

यह आज तारीख 17 October 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा

प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा

Procoss Id-/2023

पेशी दिनांक -08/01/2024

(जयदीप सिंह)

चतुर्थ जिला न्यायाघीश

इन्दौर (म.प्र.)

ऐश्वर्या पंखुड़ी .

सर्व साधारण .

किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 08 January 2024 को नियत है।

(1) सर्व साधारण पता : सर्व साधारण

लगा कर दिया गया है।

कृपया ध्यान दें -

रचना गोयल व इन्दर यादव ने जीता बेस्ट गरबा का खिताब

श्वेता खनुजा के सोजन्य से प्रदान किए गए इसी तरह नकद पुरस्कार कु नियती, कु प्रिंसी व मास्टर सार्थक पाल को राजेश अग्रवाल के द्वारा प्रदान किए गए। आयोजन एरोबिक्स क्लब मेघदत के मीन् जायसवाल, संध्या मित्तल व आयोजन समिति

के अधिकांश सदस्यों के सहयोग से किया गया। माता की आरती सी ए शिव नारायण भूतडा के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुई इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं में प्रिया भोयार, रमा दिलावरे, उत्तरा कोटियाल, माया मेश्राम, अंजली राय सहित क्लब के सदस्यों ने अपनी प्रस्तुति दी। प्रशिक्षण

अनीता राजोरिया, पुजा सैनीया, नंदना पाल ने दिया। निशा-नीत् चौहान प्रेम लता पोरवाल, मंजुला पालीवाल, निधि जैन, सुभाष पानतावने, नमन चौहान, राजिंदर सिंह भाटिया, सविता अग्रवाल, रचना, अंजलि बर्मन, स्टेफी, निमता मसीह, इंद् सिंह, आशीष पुंडलिक, विलास-विनीता पुंडलिक, रजनी चौहान, चौहान सिंह चौहान, मनीष पाल, निखिलेश जरिया, कमल जैन, मोहनदास, सुरेश त्यागी, आशा राजेश कोष्ठा, इंद् सिंह, निधि जैन, अंजना ब्रजेश गुप्ता, अनुभा गुप्ता सहित क्लब के अनेक सदस्य शामिल हुए। संचालन दीपक परमार ने किया आभार

(MACC/0000559/2023)

आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(1) पवन सोलंकी पिता नामाल्म पता - ग्राम-सामगी, तहसील-बागली

(2) अनिल पिता लखनलाल चौबे पता- 131, तिलक नगर एक्सटेंशन जिला-इन्दौर म.प्र.

यह कि प्रार्थी आशा बाई ने आपके विरूद्ध क्लेम प्रकरण के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छ्क हैं तो पीठासीन अधिकारी

न्यायालय की मुद्रा

(धर्मेन्द्र सोनी) सदस्य अट्टाईसवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

न्यायाधीश

कृपया ध्यान दें :-

 यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपवन झोन क्रमांक १३, नगर पालिक निगम, इन्दौर

नामांतरण विज्ञप्ति

क्रमांक -...../राजस्व/नामा./2022-23

दिनांक :- 03/10/2023

सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि निम्न विवरण अनुसार म.प्र.न.पा. अधिनियम 1956 की धारा 167 के अनुसार नामांतरण की सुचना प्राप्त होने के फलस्वरूप धारा के तहत कार्यवाही की जाना है। जिस किसी कि नामांतरण के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन होने के दिनांक से 07 दिवस की अवधि में लिखित रूप से मय पृष्ट प्रमाण के साथ (झोन 13 राजस्व विभाग) के कार्यालय में (अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रस्तुत करें। अवधि समाप्त होने पर आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

अनु. क्र.	सम्पत्ति का निवास एवं स्थान	वार्ड क्र.	हस्तांतरण कर्ता/विक्रेता का नाम	जिसके नाम नामांतरण होना है/क्रेता का नाम	अन्तरण का आधार
1.	488, बी स्की 103 1001166673		आशीष कुमार पिता दिलीप कुमार असरानी दिलीप पिता परमानंद जी असरानी उमेश कुमार पिता दिलीप कुमार असरानी	जसवंत सिंह पिता त्रिलोचन सिंह जुनेजा	विक्रय पत्र
2.	30, नर्मदा नगर 1001194577		संजय पिता महेन्द्र प्रकाश जी दुबे	शीतल पति विकास शर्मा	विक्रय पत्र

उज्ज्वल शैंडे ने माना

Presiding Officer: धर्मेन्द्र सोनी (आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

Process Id-/2023

जाने वाली सची में प्रविष्टि करें।

यह आज तारीख 11 September 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

इन्दौर (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर // जाहिर सूचना //

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नीचे उल्लेखित खसरा भृमि पर संस्था/कंपनी/व्यक्तियों को आवासीय भुखण्डीय विकास (विनय नगर एक्सटेंशन) उपयोग की विकास अनुमति प्रदान की गई है। उल्लेखित स्थल पर विकास कार्यों पेटे निम्नानुसार भूखण्ड/ब्लॉक/प्रकोष्ठ धरोहर रखे गये है :-

豖.	कॉलोनी/संस्था का नाम	ग्राम व खसरा क्रमांक	विकास अनुमति जारी करने का क्रमांक व दिनांक	धरोहर भूखंडों का विवरण
1.	(1) श्री राजेन्द्र सिंह पिता श्री प्रतापसिंह, (2) श्रीमती उर्मिला पिता श्री चैनसिंह, (3) श्री शांतिलाल पिता श्री मेहताबचंद्र व अन्य निवासी:- 05 मी. बिल्डर कॉलोनी, जिला इन्दौर (म.प्र.) तर्फे आममुखत्यार श्री महेन्द्र पिता स्व. श्री मीठालाल रांका, निवासी:- 05-बी, बिल्डर कॉलोनी, जिला इन्दौर (म.प्र.)	ग्राम तेजपुर गड़बड़ी, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्चे क्रमांक 99/2/2 कुल रकवा 0.534 हेक्टेयर (5340.00 वर्गमीटर) में से नेट प्लॉनिंग एरिया 3498.48 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास (विनय नगर एक्सटेंशन) उपयोग की विकास अनुमित बाबद।	पत्र क्रमांक 7361/ कॉलोनी सेल/2023 दिनांक 31/10/2023	विकास लागत के 125 प्रतिशत के मान से अभिन्यास में लाल रंग से अंकित सदर स्थल के भूखण्ड क्रमांक 19 क्षेत्रफल 1491 वर्गफीट (138.56 वर्गमीटर) एवं भूखण्ड क्रमांक 25 क्षेत्रफल 1491 वर्गफीट (138.56 वर्गमीटर), इस प्रकार कुल 02 भूखण्ड, जिनका कुल क्षेत्रफल 277.12 वर्गमीटर है, जो ई-पंजीकरण संख्या दिनांक एमपी179092023ए12477184 दिनांक 18/10/2023 से घरोहर के रूप में रखे गये है

अतः सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि उक्त भुखण्डों/प्रकोष्ठों का क्रय-विक्रय नहीं किया जावे अन्यथा कि स्थिति में निगम जवाबदेह नहीं होगा।

आयुक्त नगर पालिका निगम.

(II)

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के निर्वाचन में उत्साह

chaitanyalok.page

उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के चार पदाधिकारी तथा पाँच

अधिवक्ता तनुज दीक्षित ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज

द्विवेदी के निर्देश पर अध्यक्ष पद हेत 5 फॉर्म, उपाध्यक्ष पद हेत् 3, सचिव पद हेतु 4, सह सचिव पद हेतु 7 एवं कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु कुल 12 फार्म्स प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त किये गये हैं। इस तरह कुल 31 फॉर्म प्राप्त किए। आज फॉर्म प्राप्त करने का अंतिम

5 को निःशुल्क फिजयोथेरेपी शिविर निपानिया में एचसी मेहता सोशल वेलफेयर सोसायटी और एसडीपीएस का सयुंक्त आयोजन

चैत्रस्य लोक • इंदौर chaitanyalok.page

एच सी मेहता सोशल वेल्फेयर सोसायटी और एसडीपीसी की ओर से 5 नवंबर को निपानिया रोड स्थित अमृत पैलेस गार्डेन में निशुल्क फिजयोधेरेपी शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

शिविर रविवार को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। यह जानकारी देते हए संयोजक मनीष मेहता और नवीन शर्मा ने बताया कि शिविर में स्लीप डिस्क, लकवा, जोड़ों का दर्द, सेरेबल पाल्सी, फ्रोजन शोल्डर, गठिया, अनिद्रा, माइग्रेन आदि की निशुल्क जांच और चिकित्सा

फिजयोथेरिपिस्ट डॉ. महेश साह ने बताया कि फिजयोथेरेपी चिकित्सा में दवा, सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती और नहीं दर्द होता है। मीडिया प्रभारी प्रवीण जोशी ने बताया कि फिजयोथेरपी सस्ती और सरल चिकित्सा है और इसका प्रयोग

This is informing to everyone that my previous name was **Kinnery Kirit**Thakkar which I have changed. My new name is Kinnery Thakkar. So now everyone knows me by my new name Kinnery Thakkar Kinnery Thakkar D/o Kirit Shant

NAME CHANGE My old name was Babu Lal.

I have changed my name, my new name is Babulal Kathfar S/o Amar Lal. | will be known by my new name.

Babulal Kathfar ADDRESS- Akash Apartment Flat No. 203, Adarsh Gram Road, 1419/2, Rajmahal Colony, Indore (MP)

1078, Anurag Nagar, Scheme No.114 Part-2, Indore-10. (MP)

NAME CHANGE My old name was Rohat

Kumar. I have changed my name, my new name is Rohit Hablani S/o Sham Kumar. I will be known by my new name.

Rohit Hablani ADDRESS- 19, 20, Main Triveni Colony, Manik Bagh Road, Indore (MP)

GAGAN GASES LIMITED

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.09.2023 gagangases.com email: gm@gagangases.com CIN: L24111MP1986PLC004228

1			uarter End		Half Yea		Year Ended
S. No.	Particulars	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.202
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	54.51	34.18	59.43	88.69	149.90	456.45
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	3.57	-6.24	1.96	-2.67	13.92	245.43
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	3.57	-6.24	1.96	-2.67	13.92	245.43
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	3.57	-6.24	-0.04	-2.67	9.92	186.63
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprimising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	3.57	-6.24	-0.04	-2.67	9.92	186.63
6	Equity Share Capital	451.85	451.85	451.85	451.85	451.85	451.85
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						-153.34
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for conituing and discontinued operations) 1.Basic 2.Diluted	0.08	-0.14 -0.14	0.00	-0.06 -0.06	0.22 0.22	4.13 4.13

available on the BSE website (www.bseindia.com) and on the Company's website

Gagan Maheshwary - Managing Director